

सेलोज ग्रीन टी (घुलनशील टेबलेट)

सेलोज ग्रीन टी में सर्वोत्तम क्वालिटी की ग्रीन टी के साथ-साथ अन्य 7 अनमोल जड़ी बूटियों का मिश्रण किया गया है। यह हमारे मेटाबोलिज्म को सुचारु करने की सर्वोत्तम औषधि है। इसलिये इसे कमजोर एवं स्वस्थ व्यक्ति भी ले सकते हैं। ग्रीन टी टेबलेट ज्यादा गर्म पानी में जल्दी से घुलती है।

सेलोज ग्रीन टी के स्वास्थ्य लाभ :

1. वजन कम करने में सहायक है।
2. बढ़ती उम्र के दुष्प्रभावों को रोकने में सहायक है।
3. रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायक है।
4. कैंसर को रोकने में सहायक है।
5. कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करती है।
6. हार्ट प्रोब्लम को कन्ट्रोल करती है।
7. बी० पी० को कन्ट्रोल करती है।
8. जापान में हुए अध्ययन के अनुसार ग्रीन टी के लगातार पीने से ब्रेन स्ट्रोक के खतरे को 42 प्रतिशत तक कम किया जा सकता है।
9. पाचन शक्ति बढ़ाने में सहायक है।
10. दिमाग को तरोताजा करती है।
11. मानसिक तनाव को दूर करती है।
12. एन्टीऑक्सीडेंट का भरपूर स्रोत है।
13. सर्दी, खांसी, नज़ला, जुकाम, छींके, एलर्जी, एन्फ्लुएंजा और कोरोना के मरीजों में बहुत लाभदायक है।



ग्रीन टी



दाल चीनी



तुलसी



लैमन्



काली मिर्च



सौंठ

(सुन्दी, अदरक)



ग्रेप्स
सीडस



काला
नमक



30 टेबलेट (घुलनशील)

M.R.P. 300/-

प्रयोगविधि:- एक कप ज्यादा गर्म पानी में 1 टेबलेट ग्रीन टी डालें। अपने सामने तुरन्त ग्रीन टी तैयार होते हुए देखें। सिप-सिप करके पियें। उत्तम स्वास्थ्य के लिये दिन में 2-3 बार सेवन करें।

सेलोज शुगर फ्री शरबत

परिवार तथा मेहमानों के लिये मात्र 5 सैकिंडों में बनने वाला सर्वोत्तम पेय पदार्थ

सेलोज शुगर फ्री शरबत के स्वास्थ्य लाभ :

1. ये तीनों शरबत प्रत्येक आयुवर्ग के बच्चे, बूढ़े, जवान, स्त्री और पुरुष के लिये मनभावन स्वाद में उत्तम पेय पदार्थ हैं।
2. तीनों शरबत को प्रयोग करते समय चीनी डालने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है।
3. डायबिटीज के स्तर को न बढ़ाने के गुण के कारण यह शरबत डायबिटीज रोगियों का पसंदीदा उत्पाद बन गया है।
4. दूध में मिलाकर स्वादिष्ट मिल्क शेक का मजा ले सकते हैं।
5. दूध की मात्रा के अनुसार बूंदे मिलाकर तीनों स्वाद में आईक्रीम भी बनाई जा सकती है।
6. लस्सी, हलवा, बर्फी, दही और खीर में चीनी की जगह अपना मनपसंद स्वाद मिलाकर ओर ज्यादा स्वादिष्ट बनाया जा सकता है।
7. कोल्ड ड्रिंक से लाख गुना अच्छा तथा बाजार में बिकने वाले अन्य सॉफ्ट ड्रिंक्स का अच्छा विकल्प है जो आपकी सेहत के साथ-साथ धन की भी बचत करता है।



M.R.P. 250/- each

बादाम, गुलाब और पाइनऐप्पल स्वाद में उपलब्ध

प्रयोगविधि:- एक गिलास पानी या दूध में 2-3 बूंदें मिलाने से तैयार।

